

Salora International Ltd.

Date: November 15, 2024

BSE Ltd. Department of Corporate Services, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001.

#### Scrip Code: 500370

#### Sub: Newspaper advertisement titled "Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results of Salora International Ltd. for the quarter and half year ended 30th September, 2024"

Dear Sir,

With reference to our letter dated 13th November, 2024, under the cover of which we had furnished to you the Unaudited Financial Results for the second quarter and half year ended 30th September, 2024, we are enclosing herewith the copies of the newspaper cuttings of the aforesaid Financial Results published by the Company in Financial Express Newspaper (English Edition) and Jansatta Newspaper (Hindi Edition) on 15th November, 2024.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

#### For Salora International Limited

GOPAL SITARAM JIWARAJKA Date: 2024,11,15 JIWARAJKA

Gopal Sitaram Jiwarajka Chairman & Managing Director DIN:00024325 **62** 

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

## SALORA

## SALORA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L74899DL1968PLC004962

Regd. office : D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020.

Visit us at www.salora.com

## EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

### STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2024

				8		(Rs. In lacs)
	Q	uarter Ender	ł	Six Mont	Year Ended	
Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from operations	2,510.32	3,229.18	4,318.58	5,739.50	7,898.64	15,972.92
Profit/(loss) before tax (including exceptional item)	(58.85)	(50.80)	(56.80)	(109.65)	(184.87)	(276.78)
Net profit / (loss) for the period after tax	(40.77)	(38.00)	(44.01)	(78.77)	(139.98)	(208.74)
Total comprehensive income (comprising profit / (loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(40.67)	(37.90)	(45.90)	(78.58)	(143.77)	(208.36)
Paid-up Equity Share Capital	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73
Reserves as shown in the Balance Sheet	-			-		4,758.95
Earning per Share (of Rs. 10/- each)						
Basic & diluted earning per share	(0.46)	(0.43)	(0.50)	(0.89)	(1.59)	(2.37)
Basic & diluted earning per share (after exceptional items)	(0.50)	(1.09)	(0.69)	(1.59)	(1,53)	(10.18)

#### Notes:

 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved thereafter by the Board of Directors in the meeting held on 13 November 2024. These results have been reviewed by the Statutory Auditors of the company.

- The SLP on merits with the Honourable Supreme Court and writ petition in High Court of Delhi are still pending for disposal and contingent liability against this matter shall stand as it is.
- 3. Deferred tax assets Rs.2207.07 lacs as at 30<sup>th</sup> September, 2024 is expected to be realized, as the company strongly believes that it has reasonably certainty of realization. The company has enhanced its product portfolio and the new business strategy of deeper penetration, greater operational efficiency, thereby the company expects to start absorbing the losses gradually. Moreover there are no brought forward losses under the Income Tax Act, which are expiring during the current financial year.
- 4. In accordance with IND AS-108 "Operating Segment", the company has only one reportable segment i.e " Consumer Electronic Division".

5. The figures for the corresponding previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to make them comparable.

Place : New Delhi. Date : 13th November, 2024 Sd/-GOPAL SITARAM JIWARAJKA CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR DIN : 00024325



#### FORTUNE INTERNATIONAL LTD

CIN : L52324DL 198 1FL C012033

Regd. Office: G-4, Community Centre, Naraina Whar, New Delhi-110028 E- Mail ID for investors: rekha.srivastava2016@gmail.com Tel: 011-25774212-214, 25771629

### Ednact of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter/Hall Year ended on 30th September, 2024

(Figures in lakhs)

			Sh	indatone Resi	ARS		Consolidated Results				
	Particulars	Quarter ended 30.09.2024 (Unsudited)	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Huff Year ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Contraction of the second s	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Hulf Vear ended 30:09:2024 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.202 (Audited)
	ome from operations (not)	-					-	-			1 - St
	(E/Loss) for the period (before tax, exception		0.000	24080	1000	100000	60m.2	0.04	0000	2501055	0.2007
	odraordinary items)	87,31	\$7,69	\$4.05	79.57	73.91	-2.57	-2.18	-6.82	40,31	-15.97
	It/(Lous) for the period before tax (after	10000	122027	1970-	100000	0.0223715	1232	12522	1/2023	102201	10000
	mail and/or entraordinary items )	17.31	87.69	04.05	79.57	73.91	2.57	-2.18	-6,92	-10,31	-15.90
	ft/(Loss) for the period after tax (after mai and/or extraordinary items)	06.15	67.34	62.90	59.02	54.78	-21.72	-22.73	26.94	-30.16	-35.05
	amprehensive income for the period	06,10	67,34	0,2,30	59.02	04.78	-44.72	-46.14	~20.34	-00.99	~20.05
	sing Profit / (Loss) for the period after tax	ă l									
	ar Comprehensive Income (after tai)	66.15	67.14	62.90	69.02	54.78	163.62	4027	306.32	209.52	602.1
	Equity Share Capital	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.0
	is anducting Revaluation Reserve as shown	in									
	nce Sheit of previous year)	+				-291.92			+	100	0205.8
	s Per Share (or continuing and										
and the second second	nued operations)				1000		1000				
Sank: :		0.94	0.95	0.89	0.84	0.78	232	-0.15	4.34	3.40	7.5
bated		0.94	0.95	0.89	0.84	0,78	232	-0,15	4.34	3.40	7.1
		DITED STATE	MENT OF AS	SETS & LIAI	BILITIES						
91.	Particulars		Standalone		Consolidated						
NO.	No. As			i March 31, 20 Iount in Laith		tember 30,20 ant in Lakhs	24 As at Mar Amount	rch 31, 2024 t In Lakhs .			
1	ASSETS							n an far			
1	Non Current Assets										
	(a) Property, Plant and Equipment		(6)		i		8				
	(b) Capital work-in-progress		3.13			3.12	01				
	<li>(c) Financial Assets</li>				_	1.00000000					
	(i) investments	3	70.21	370.3	1	4110.46	(i);	3,868.04	10.02		
	(d) Other non-current assets				-			÷	Note:		
2	Current Assets								The above	is an extr	act of th
	(b) Financial Assets								detailed for	mat of Quart	terly/Year
-	<ol><li>f) Trade receivables</li></ol>		1.1		5		8		<b>Financial Re</b>	suitsfiled wit	h the Soc
_	(ii) Cash and cash equivalents		137.7	14.6	1	137.7		\$4.61	Exchanges.	under Regul	ation 33
	(b) Current Tax Assets (net)		1.69		4	1.69		1.14		(Listing a	
	<li>cher current assets</li>		7.38	2.0	the second se	7.38		2,59	Disclosure	and the second se	iir ements
	TOTAL	6	20.12	458.6	5	4260.26	8	3,966.38	and the second second	2015 The h	
8.	EQUITY AND LIABILITIES				-		-		the second second second second	erly/Yearly	
	EQUITY		1.10		_			100 C 4 B		available on	
<u> </u>	(a) Equity Share Capital		94.00	704.0		704.00		704.00			
-	(b) Other Equity	-2	29.92	(291.92	/	3611.13		3,205.01	Exchange		Contract Contract William
-	kital Equity				-		-			ia.com and a	
-	LABLITES						-			s website	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-	Non Current Liabilities				-		-			enternational	
-	(a) Financia Liabilities		0.00	15.2		10.00	-	15.00	For FOR	IUNE INTER	NATIONA
-	(i) Borowings Overset Listellier		43:00	43.0		43.00	-	43,00			LT
2	Current Liabilities		-		-	_	-				Sd
-	(a) Financial Liabilities						-	20		(Ruchika E	haradwa
-	<ul> <li>ii) Trade payables</li> <li>a) total outstanding dues of</li> </ul>						-	- C -		A CONTRACTOR	Directo
	creditors other than MSE		1.27	3.0	81	1.27	7	2.01		COIN	00288455
-	(b) Other Current Liabilities		0.97	0.0		0.87		0.56	Place: New	Barbon and an	
	TOTAL	10	20.12	458.6	And and a second se	4260.26		3,956.34			
1	TO PAL.		CW-16	90.00	2 C L	429929	S	0/000/04	Dute : 14.1	-0WC4	



#### Unaudited Financial Results for the six months ended September 30, 2024

SI. No.	Particulars	As on September 30, 2024
1	Debt Equity Ratio (Loan Funds / Own Funds)	1.53
2	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC
3	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC
4	Outstanding Redeemable Preference Shares (quantity and value)	N.A
5	Capital Redemption Reserve (Rs. in Crores)	4.00
6	Debenture Redemption Reserve (Rs. in Crores)	1.01
7	Net worth (Rs. in Crores)	3 ,007.46
8	Net Loss after Tax (Rs. in Crores	(2,780.35
9	Earnings per Share (EPS) - Basic and Diluted (Amount in Rs.)	(112.20
10	Current Ratio	Not Applicable, being an NBFC
11	Long term debt to working capital	Not Applicable, being an NBFC
12	Bad debts to Account receivable ratio	Not Applicable, being an NBFC
13	Current liability ratio	Not Applicable, being an NBFC
14	Total debts to total assets (Debt Securities + Borrowings (Other than Debt Securities) + Subordinated liabilities) / Total Assets	0.5
15	Debtors tumover	Not Applicable, being an NBFC
16	Inventory turnover	Not Applicable, being an NBFC
17	Operating Margin	Not Applicable, being an NBFC
18	Net loss Margin (Loss after tax / Total Income)	
- 1	For the quarter ended 30 September 2024	-632.98%
1	For the six months ended 30 September 2024	-323.12%
19	Other Ratios (not subjected to review)	
(A)	% of Gross Non Performing Assets (Gross NPA / Loan Book)	1.26%
(B)	% of Net Non Performing Assets (Net NPA / Loan Book)	0.40%
(C)	Capital to risk-weighted assets ratio (Calculated as per RBI guidelines)	50.32%
(D)	Liquidity Coverage Ratio (%) for Q2 FY 25	325%

# 

Sammaan Finserve Limited

(Formerly Indiabulls Commercial Credit Limited)

(CIN: U65923DL2006PLC150632)

Extract of Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2024

(Rupees	in (	Crores)
---------	------	---------

0	(Rupees in crores)					
		Quarter ended	Half year ended	Quarter ended	Year ended	
SI. No.	Particulars	30.09.24	30.09.24	30.09.23	31.03.24	
		(Reviewed)	(Reviewed)	(Reviewed)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	449.62	858.76	459.05	1,494.73	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(3,816.10)	(3,712.98)	143.02	543.94	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,816.10)	(3,712.98)	143.02	543.94	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2,856.75)	(2,780.35)	106.85	413.00	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2,794.48)	(2,659.69)	118.84	428.09	
6	Paid-up Equity Share Capital		247.80		247.80	
7	Reserves excluding Revaluation Reserves (as per balance sheet of previous accounting year		2,759.66		5,419.35	
8	Securities Premium Account		3,249.41		3,249.41	
9	Net worth		3,007.46		5,667.15	
10	Debt Capital / Outstanding Debt		4,600.64		7,505.82	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares		-		-	
12	Debt Equity Ratio		1.53		1.32	
13	Earnings per Share (EPS) before extraordinary items *(EPS for the quarters and six months are not annualised) -Basic (Amount in Rs.) -Diluted (Amount in Rs.) - Face Value (Amount in Rs.)	115.28) (115.28) 10.00	(112.20) (112.20) 10.00	4.31 4.31 10.00	16.67 16.67 10.00	
14	Capital Redemption Reserve (Rs. in Crores)		4.00		4.00	
15	Debenture Redemption Reserve (Rs. in Crores)		1.01		1.01	
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable, be	eing an NBFC			
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable, be	eing an NBFC			


## **Sammaan Capital Limited**

(Formerly Indiabulls Housing Finance Limited) (as standalone entity)

(CIN: L65922DL2005PLC136029)

Standalone Financial Results for the six months ended September 30, 2024

SI. No.	Particulars	As on September 30, 2024		
1	Debt Equity Ratio ((Debt Securities + Borrowings (Other than Debt Securities) + Subordinated liabilities) / Own Funds)	2.02		
2	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC		
3	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC		
4	Outstanding Redeemable Preference Shares (quantity and value)	N.A		
5	Capital Redemption Reserve (Rs. in Crores)	0.30		
6	Debenture Redemption Reserve (Rs. in Crores)	146.3		
7	Net worth (Rs. in Crores)	20,965.34		
8	Net Profit after Tax (Rs. in Crores)	367.1		
_	Earnings per Share (EPS) - Basic (Amount in Rs.) - not annualised	6.0		
9	- Diluted (Amount in Rs.) - not annualised	6.0		
10	Current Ratio	Not Applicable, being an NBF		
11	Long term debt to working capital	Not Applicable, being an NBF		
12	Bad debts to Account receivable ratio	Not Applicable, being an NBF		
13	Current liability ratio	Not Applicable, being an NBF		
14	Total debts to total assets (Debt Securities + Borrowings (Other than Debt Securities) + Subordinated liabilities) / Total Assets	0.6		
15	Debtors turnover	Not Applicable, being an NBF		
16	Inventory turnover	Not Applicable, being an NBF		
17	Operating Margin	Not Applicable, being an NBF		
	Net profit Margin (Profit after tax / Total Income)			
18	As on Quarter ended 30 September 2024	5.34%		
	As on Six months ended 30 September 2024	9.18%		
19	Other Ratios (not subjected to review)			
(A)	% of Gross Non Performing Assets (Gross NPA / Loan Book)	3.04%		
(B)	% of Net Non Performing Assets (Net NPA / Loan Book)	1.819		
(C)	Liquidity Coverage Ratio (%) for Q2 FY 25	345%		
(D)	Capital to risk-weighted assets ratio (Calculated as per RBI guidelines)	25.94%		



Notes: 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee on November 14, 2024 and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on November 14, 2024.

- 2. This unaudited financial results of the Company for the quarter and six months ended September 30, 2024 has been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time.
- 3. The above is an extract of the detailed format of Quarter ended / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended / Annual Financial Results are available on the Company's website (http://www.indiabullscommercialcredit.com) and on the website of BSE (http://www.bseindia.com) and NSE (http://www.nseindia.com).
- 4. Figures for the prior year / period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary

Registered Office: Building No. 27, 5 <sup>th</sup> Floor, KG Marg, New Delhi-110001. Place : Mumbai Date : November 14, 2024	
Date : November 14, 2024	

For and on behalf of the Board of Directors

Rajiv Gandhi Managing Director & CEO

2Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)(3,684.95)(3,247.81)421.561,648.693Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)(3,684.95)(3,247.81)421.561,648.69
4Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)(2,760.72)(2,433.96)297.981,214.39
5Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)](2,559.51)(2,145.67)586.931,532.62
6         Equity Share Capital         144.79         144.79         94.23         113.03
7Earnings per Share (EPS) (not annualised) (for continuing and discontinued operations) - Basic (Amount in Rs.)(44.23)(40.90)6.0923.83
- Diluted (Amount in Rs.) (44.12) (40.76) 6.00 23.58

Notes: 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee on November 14, 2024 and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on November 14, 2024.

2. The financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 Interim Financial Reporting, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time.

3.	Key Standalone Financial Information:			(Rupe	es in Crores)	
3		Quarter ended	Half year ended	Quarter ended	Year ended	
	Particulars	30.09.24	30.09.24	30.09.23	31.03.24	
		(Reviewed)	(Reviewed)	(Reviewed)	(Audited)	
	Total Income	2,067.70	4,001.27	1,885.06	7,539.02	
l	Profit before Tax	144.29	483.22	332.85	1,294.07	
	Net Profit after Tax	110.51	367.14	247.63	989.82	


4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Company's website (https://www.sammaancapital.com) and on the website of BSE (http://www.bseindia.com) and NSE (http://www.nseindia.com).
 5. Figures for the prior year / period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary and/or in accordance with the amendment in Schedule III of the Act.

Registered Office: Building No. 27, 5th Floor, KG Marg, New Delhi-110001.

Place : Mumbai Date : November 14, 2024 Gagan Banga Vice-Chairman, Managing Director & CEO













जनसता

15 नवंबर, 2024

## 13

## डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सीआईएन : L65921DL1991PLC043087

पंजीकृत कार्यालयः ऊपरी भूतल, साउथ टॉवर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामहमार्ग, प्रगति विहार, दिल्ली–110 0 03

ई-मेल : info@dfslonline.in | वेबसाइट :www.dfslonline.in | फोन :011-20818570

#### 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

						(रा	शि लाखों में)
			तिमाही समाप	त	छमाई	ो समाप्त	वर्ष समाप्त
कम सं.	विवरण	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
ч.	1.1.01.01.00.000	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
i.,	परिचालन से कुल आय			I fam		1	and a service of the
2.	अन्यआय	34.65	113.75	13.20	148,40	55.16	81.99
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर असाधारण और / या असाधारण मदों से पहले)	7.89	28.47	(35.68)	36.36	(33.09)	(95.46)
4.5	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	7,89	28.47	(35.68)	36.36	(33.09)	(95.46)
5.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारणऔर / या असाधारण मदों के बाद)	(6.86)	(6.32)	(34.52)	(13.18)	(37.14)	(93.89)
6.	संयुक्त उद्यम का लेखा इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया जाता है		=		E.	385	E
7.	अवधि के लिए कुल व्यापक आच [अवधि के लिए लाम / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	(6.90)	(6.43)	(34.66)	(13.33)	(37.33)	(94.14)
8.	इविचटी शेयर पूंजी		-	-	~		2212.51
9,	आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दर्शाया गया है)	10	55.	955	Ø	1.50	(7089.88)
10.	जारी एवं बंद परिवालनों के लिए प्रति शेयर आय (रु. 10 / – प्रत्येक)—	22.24	26.90	22 - 34	5 M	14 - 16	
	1.बुनियादी	(0.03)	(0.03)	(0.16)	(0,06)	(0.17)	(0.42)
	२.पतला	(0.03)	(0.03)	(0.16)	(0.06)	(0.17)	(0.42)

टिप्पणीयाः

1. 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्घ वर्ष के लिए स्टेंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	30.09.2024 (त्रैमासिक)	30.09.2024 (अर्धवार्षिक)
कारोबार	34.31	147,47
कर पूर्व लाभ	7.43	36.48
कर के बाद लाम	(7.49)	(12.99)

.2. उपरोक्त विवरण सेंबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है । तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबलाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.dfslonline.in पर उपलब्ध है।

0.0	1.000 March 1000	1. PM 10. 10	AAN	124/34	6-2-2-
डासाएम	फाइनेंशियल	सावसज	लिमिटेड	क	ला
					2.22

	हस्ता/—
	निधि देवेश्वर
तिथिः 13.11.2024	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक
स्थानः नई दिल्ली	डीआईएन: 09505480



#### पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सीआईएन : L65910MH1984PLC032639 पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर -601, 6ठी मंजिल पीरामल एमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉपोरेंट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070 -दूरभाष : +91 22 3802 4000 शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 211

एवं 212, दूसरी मंजिल, 'टाइटेनियम' शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

संपर्क व्यक्ति : 1. प्रशान्त पाण्डे - 7054013999, 2. वैभव जैन - 9837536789, 3. विशाल केतले-958496665 ई-नीलामी बिक्री सूचना-नवीन बिक्री

ऋणधारक/ कों से बकाये राशि की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की डीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में भौतिक कब्जे में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की ''जैसा है जहां है आधार), ''जो भी जैसा है आधार)' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर खरीद के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित है जिसके विवरण निम्नलिखित हैं :

ऋण कोड शाखा/कर्जदार( रों )/सह- कर्जदार( रों )/जमानती( यों )	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का पता-अन्तिम	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि ( 12-11-2024 )
ऋण कोड सं.: HLSA00008E8F, लखनऊ-गोमती नगर (शाखा), सलिल श्रीवास्तव (कर्जदार), सविता श्रीवास्तव (सह-कर्जदार 1)	दिनांकः 03-01-2024, रु. 17,11,025/-(रुपये सत्रह लाख ग्यारह हजार पच्चीस मात्र)	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भागः- प्लॉट संख्या 137 और 138, खसरा संख्या 216 का हिस्सा, गांव- गौरभीत, वार्ड- फैजुल्लागंज, तहसील और जिला- लखनऊ- 226020 सीमाः- उत्तरः प्लॉट संख्या 139 दक्षिणः अन्य का मकान पूर्वः पंकज सिंह का मकान पश्चिमः 20 फीट रोड	रु. 30,20,000/- ( रुपये तीस लाख बीस हजार मात्र)	रु. 3,02,000/- (रुपये तीन लाख दो हजार मात्र)	रु. 19,33,435/- (रुपये उन्नीस लाख तैंतीस हजार चार सौ पैंतीस मात्र)
	त्येक के असीमित विर के लिए www.pirama	मी की तिथि : 24.12.2024, 11.00 बजे पूर्वा. से 1 तार सहित), संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : Ifinance.com/e-Auction.htm' में प्रावधानित लिंक देखें '	23.12.2024 को या हमें piramal.au	ction@piramal.	
जाता है, जिसमें विफल होने पर	टर को एतद्वारा धारा 13(	⁄ <b>बंधककर्ता को सरफैसी अधिनियम के तहत 30 दि</b> व (2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान अर्जित ब्याज के सा की जाएगी और शेष राशि यदि कोई होगी कर्जदार/गारंटर से ब्	थ पूर्ण रूप से नीलाम	ों की तिथि से पहले त गथ वसूल किया जाए	ΠΙ
तिथि : 15 नवम्बर, 2024 स्थान : उ.प्र.∕उत्तराखण्ड			पीरामल व	ह.⁄- ( कैपिटल एण्ड हाउसि	अधिकृत प्राधिकार्र ांग फाइनेंस लिमिटे

सीआईएन : पंजीकृत कार्यालयः 37वीं दूसरी मंजिल ईमेल आईडी: cbnl.delhi@gm 30 सितंबर, 2024 को र	: L92100DL19 , रानी झांसी रो ail.com, वेबसा समाप्त तिमाही	94PLC05909 ड मोतिया खान, इट: www.sadl और छमाही के हि	पहाड़गंज, दिल्ली —1 1nabroadcast.con 5ए स्टैंडअलोन	
विवरणों (निम्न नोट देखें)	समाप्त तिमाही 30.09.2024 (अलेखापरीबित)	वर्ष	पिछले वर्ष में समाप्त हुए संगत 3 महीने (30.09.2023) (अलेखापरीक्षित)	पिछला वर्ष समाप्त हुआ (31.03.2024) (लेखापरीक्षित)
। परिचालनों से कुल आय	436.14	(9).44	343.31	2.37
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले, विशेष और / या असाधारण मदें')	95.23	104.79	130.63	a.a:
लाभ / (हानि) ( विशेष और / या असाधारण मदें ' के बाद)	95,23	104.79	130.62	0.01
कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) ( विशेष और / या असाधारण मदें के बाद)	71.25	78.60	97.75	0,0
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [ अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	71.25	78.80	.97.75	0.0
👩 इक्विटी शेयर पूंजी	1,007.65	1,002,88	1,002.65	1.002.45
अारक्षितों (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)पिछले वर्ष के लेखा–परीक्षित तुलन पत्र में दिखाए गए अनुसार :	0.00	0.00	0.90	0.0
<ul> <li>प्रति शेयर आय (रु. 10/ – प्रत्येक का ) (चालू और बंद परिचालन के लिए):</li> <li>1. बेसिक</li> <li>2. डाइलूटड</li> </ul>	9.07 0.07	0.06	0,10 0,10	0,01 0,01
	सीआईएन : पंजीकृत कार्यालय: अर्वी दूसरी मंजिल ईमेल आईडी: cbnl.delhi@gm 30 सितंबर, 2024 के भाग I अलेखापरीक्षित (निम्न नोट देखें) परिवालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, विशेष और /या असाधारण मदें ') कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और /या असाधारण मदें ' के बाद) कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और /या असाधारण मदें ' के बाद) कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और /या असाधारण मदें के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [ अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ/(हानि)) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] इक्विटी शेयर पूंजी आरक्षितों(पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)पिछले वर्ष के लेखा–परीक्षित तुलन पत्र में दिखाए गए अनुसार : प्रति शेयर आय (रु. 10/– प्रत्येक का ) (यालू और बंद परिवालन के लिए): 1. बेसिक	सीआईएन : L92100DL19 पंजीकृत कार्यालय: अर्ग्वी दूसरी मंजिल, रानी झांसी रोत ईमेल आईडी: cbnl.delhi@gmail.com, वेबसा 30 हितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही भाग I अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणात विवरणों विवरणों समाप्त तिमाही (निम्न नोट देखें) 30.09.2024 (अलेखापरीक्षित) परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर से पहले, विशेष और / या असाधारण मदें ') कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशेष और / या असाधारण मदें ' के बाद) कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशेष और / या असाधारण मदें ' के बाद) कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम /(हानि) (विशेष और / या असाधारण मदें ' के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [ अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाम / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] इक्विटी शेयर पूंजी आरक्षितों(पुनर्मूत्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)पिछले वर्ष के लेखा–परीक्षित तुलन पत्र में दिखाए गए अनुसार : प्रति शेयर आय (रु. 10/– प्रत्येक का ) (यालू और बंद परिचालन के लिए): 1. बेसिक	पंजीकृत कार्यालयः अर्थी दूसरी मंजिल, रानी झांसी रोड मोतिया खान, ईमेल आईडी: cbnl.delhi@gmail.com, वेबसाइट: www.sadl 30 हितंबर, 2024 को समाप्त तिमाष्ठी और छमाष्ठी के ति भाग 1 अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम के विवरण का तिमाष्ठी और छमाष्ठी के ति भाग वर्ष-दर-वर्ष विवरणों तिमाष्ठी 30.09.2024 (अलेखापरीक्षित) परिचालनों से कुल आय परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर से पहले वी अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशेष और /या असाधारण मदें ') कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशेष और /या असाधारण मदें 'के बाद) कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशेष और /या असाधारण मदें के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) विशेष और /या असाधारण मदें के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) वे लिए संयुक्त लाम/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] इक्विटी शेयर पूंजी आरक्षितॉ(पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)पिछले वर्ष के लेखा–परीक्षित तुलन पत्र में विखाए गए अनुसार : प्रति शेयर आय (रु. 10/– प्रत्येक का ) (खालू और बंद परिचालन के लिए): 1. बेसिक	सीआईएन : L92100DL1994PLC059093 पंजीकृत कार्यालय: अर्थी दूसरी मंजिल, रानी झांसी रोड मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली –1 ईमेल आईडी: cbnl.delhi@gmail.com, वेक्साइट: www.sadhnabroadcast.com 30 हितंबर, 2024 को समाप्त तिमादी और छमादी के लिए स्टॅंडअलोज भाग I अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम के विवरण का अंग्र विवरणों पिछले वर्ष में तिमाही आंकडे सिमापत दुए संगत 30.08.2024 (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (तिमन नोट देखें) 30.08.2024 (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (उ0.09.2024 (अलेखापरीक्षित) परिचालनों से कुल आय परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर से पहले, विशेष और /या असाधारण मदें ') कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाम /(हानि) (विशेष और /या असाधारण मदें के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाम/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] इतिवटी शेयर पूंजी असक्षितों(पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)पिछले वर्ष के लेखा–परीक्षित तुलन पत्र में दिखाए गए अनुसार : प्रति शेयर आय (रु. 10/– प्रत्येक का ) (यालू और दंय परिवालन के लिए): भीराक्र

जित उनकी तकों ने सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 33 के अनुसार 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की "सीमित समीक्षा रिपोर्ट" आयोजित की है।

. यह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और लाग सीमा तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखा प्रथाओं और नीतियों के अनसार तैयार किया गया है।



H	सीआईएन पंजीवृत्व कार्यालय: 6149/41/34 चौध कॉर्वोवेट कार्यालय : चौधरी सिलेन इंपिल आईबी: airajispatind	n Addar, 19, ofta Instrictional.co Ar 011–20651021,	985P1.C021811 वाली, इन्हें मंती, सब ते, रोक गतविवाबाद, um, वेबसाइट: www 011-66581675	कार प्रदेश-201002 v.nirajispat.in	त (लाफ में )
1000	विवरणों (निम्न नौट देखें)	स्त्रमण तिमाही ३०.०६.३०३४ (सलेखापरीक्षित)	বর্গ–হং– হর্ব রাজর ३0.99.2024 (মলাব্যামিন)	मिछले को में समाख हुए संगत 3 महीने (३०.१९.२०२३) (अलेखापरीक्षित)	विछला वर्ष समाप्त हुसा (३१.०५.३०२४) (लेखापरीक्षित)
1.	परिचालनी से कल आव	131.06	244.46	115.82	416.33
2	अवधि के लिए शुद्ध लाख(हवनि) (कर से पहले, विशेष और /या असाधारण मदे* )	47.01	\$4.12	32.57	310.21
1	कर से पहले की अवधि के लिए सुद्ध लग्म-(हानि) ( विशेष और व्या असावारण मर्दे * के बाद)	47.31	84,12	32.87	110.21
4	कर के बाद की अवधि को लिए शुद्ध लामा/(हामि) ( विश्लेष और म्या असाधारण मंदें के बाद)	35.44	42.99	23.17	61.02
D.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय   अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लामध(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	35.44	62.98	23,17	61.02
6	इतिवटी शेयर पूली	65.00	63.00	E0 33	E0.00
T	आरक्षिती(पुनर्मुल्याकन आसंक्षिती को छोड्डकर)पिछले वर्ष के लेखा–परीक्षित तुलन पत्र में विखाए गए अनुसार :				
£.	प्रति शेयर आय (ह. १६/– प्रत्येक का ) (यालू और बंद यरिषालन के लिए) 1. वेसिक 2. बाइल्टव	191 5 91	10.50 10.50	2.85 1.01	13.50

विलीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित मास्तीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुरूप हैं, जिसे इसके अंतर्गत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जा सकता है।

हस्ता./-

चौतन्य चौधरी

निदेशक सह सीईओ

खीआईएन: 06813394

- कंपनी "पॉली बटन के विनिमांण" के व्यवसाय में लगी हुई हैं, तथा इसलिए इंड एएस 108 "ऑपरेटिंग संगमेंट" के अनुसार इसका केवल एक रिपोर्ट चोग्य संगमेंट है।
- पिछली संवधि के आंकड़ों को चहां भी सावश्यक हो, पुनर्समुहित/पुन वर्गीकृत किया गया है



जिविद्या संख्या : रेलटेल/टेंडर/अं 2024-25/1547, famias

रेलटेल/पूर्वी क्षेत्र "सीसीटीवी के लिए ईसीएल को प्रब बैडविड्य जेवा प्रदान करने के लिए राउटार, श्विन खुएसएकची, एसएकची और अन्य बहायक उपकरण की भाष्ट्रि के कार्य हेतु पाल बोलीदालाओं से ई-बोलिय आयंत्रित करता है।

विस्तुत निविदा सूचना/ निविदा दस्तावेज https:// www.railtel.in, https://eprocure.gov.in और https://railtel.enivida.com पर उपलब्ध है। भविषय के शभी परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र आदि को देलटेल वेबसाइट. शीपीपी पोर्टल और ई-निविदा पोर्टन पर अपलोह किया जाएगा। बोलीदाताओं को केवल ई-जिविदा पोर्टल पर इपनी बोली जमा करनी होगी।

ऋणवसली न्यायाधिकरण--।, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, गई दिल्ली-110001 टीएसए 1002 / 2022 हेमल मैसन ्यातेवक जनाम ओरिक्स लीज एंड फाइने शियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटे ब सेवा में श्रीमती रेण कालस पत्नी श्री सेनील कालस, सी–10 अंडर. हिल रोड, सिविल लाहंस, विल्ली-110054 . श्री राष्य्य कालच पुत्र श्री सुनील कालरा, स्वि–10 अंडर हिल रोग, सिथिल लाइस, दिल्ली—110054 श्री सुनील कालना पुञ स्वर्गीय श्री सुवर्शन कालना, स्त्री--10 अंडर हिल चेड, सिविल लाइस विल्ली–११००६४ 4. श्रीमती प्रियंका कक्कड, सी.- 10 अंडर हिल रोड, सिविल लाइज दिल्ली–110054 पकि उपरोक्त आवेदक ने अञ्चल विरुद्ध SARFAESI अधिनियम 2003 की धारा 17 के लंतर्गत मामला दर्ज किया है तथा यायाधिकरण की संतुष्टि के अनुसार यह दर्शाया नया है वि

जापको सामान्य तरीक से नोटिस मेजना संमव नहीं है । इसलिए यह नोटिंस विज्ञापन डारा दिया जाता है, जिसमें आपको दिनांक 20.12.2024 को प्रातः 10.30 बजे एल.डी. रजिस्टार के समझ उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है । कृपया ध्यान दें कि यदि आप अपर्युक्त तिथि को इस

वायाधिकरण के समझ उपस्थित नहीं होते हैं तो मानले की मुनवाई और निर्णव आपकी अनुपरिवति में किया आएगा । रत रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडिय हॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्प्राया जाएगा और उस उदेश्य के लिए भागी अधिवक्ता/वादीगण "सिल्को बेबएक्स" एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर ताखनलोठ करेंगे,

'रजिस्ट्रार/'वसूली अधिकारी--।/'और वसूली अधिकारी--। द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अपली तिथि के लिए "मीटिंग आईडी" और पासवर्ड" सार्वजनिक सूचना शीर्पक के अंतर्गत क्षेत्रारटी आधिकारिक पोर्टल यानी "drt.govin" पर अगली तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध

। किसी भी आपात रिवति में, अधिवक्ता / वादीमण संबधित अधिकारी सेफोन ने. 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं। इस दिगांक 25 सक्टूबर, 2824 को ट्रिब्यूगल की मुहर और मेरे रस्तालर से दिया गया

> इस न्यायाधिकरण के आदेश से सहायक रजिस्ट्रार

टेल्न र का उपक्रम) 120L200060(107905)	CENLUB Industries Limited
मोटी/ईआर/एचक्यू/ : : 14.11.2024 नेप क्रीप्रज को प्रबंधिन	पंजीकृत कार्यालय— ईमेल : investors@

सीआईएन : L67120HR1992PLC035087 ार्यालय— भूखण्ड सं. 233–234, सेक्टर–58, फरीदाबाद–121004, हरियाणा, (भारत) estors@cenlub.in, वेबसाइट : www.cenlub.in, दूरभाष : 91-8826794470-71 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा अर्द्धवर्ष

के वित्तीय परिणामों का साराँश

सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेंड

क्र.		समाप्त	तिमाही	समाप्त अर्द्धवर्ष			
सं.	विवरण	30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)		
1	परिचालनों से कुल आय	1743.67	1,962.21	3690.61	3,195.20		
2	अवधि हेतु निवल लाभ⁄(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	299.18	378,10	627.3	576.23		
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ∕(हानि) (आपवादिक एवं∕अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	299.18	378.10	627.3	576.23		
4	कर उपरान्त अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	191.06	294.25	436.59	442.51		
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ⁄(हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) से समाविष्ट]	191.06	294.25	436.59	442.51		
6	समता अंष पूंजी	466.29	466.29	466.29	466.29		
7	आय प्रति अंष (रु. 10⁄— प्रत्येक का) (परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों हेतु)— मूलभूत ः तरलीकृतः	4.09 4.09	6.31 6.31	9.36 9.36	9.49 9.49		

#### टिप्पणियाँ

1. सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) 34 "अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित है, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2016 और उसके बाद प्रासंगिक संशोधन नियमों के साथ पढ़ा गया है।

2. उपरोक्त परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 14 नवंबर, 2024 को आयोजित उनकी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छह महीनों के लिए "सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड" के उपरोक्त वित्तीय परिणामों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी समीक्षा एंगेजमेंट्स (एसआरई) 2410 के मानक के अनुसार कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन किया गया है।

3. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध तिमाही और वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.cenlub.in पर उपलब्ध है।


कृते सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड

दिनाँक : 14 नवंबर 2024 स्थान : फरीदाबाद

कार्यकारी निदेशक/सीएफओ (डीआईएन : 00041986)

हस्ता. /

अंश मित्तल



कंपनी "विज्ञापन" के व्यवसाय में लगी हुई है और इसलिए, IND AS 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के अनुसार इसका केवल एक रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट है।

5 साविधिक लेखा परीक्षक ने कंपनी के परिणाम की सीमित समीक्षा की है। नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिए

डीआईएनः 02566683 दिनांकः 13.11.2024

Place: KANPUR

Date: 13.11.2024

द

दिनांक 13.11.2024 बाल मुकुंद तिवारी स्थानः दिल्ली प्रबंध निदेशक

## SUPER TANNERY LIMITED

हस्ता ./-

CIN No.: L19131UP1984PLC00621

Regd. Office: 187/170, Jajmau Road, Kanpur - 208 010 (U.P);

Ph.: +91 7522000370, Fax: +91 512 2460792, Email: share@supertannery.com, Web: www.supertannery.com

				STANDALO	NE		CONS	OLIDATED	
SI. No.	Particulars	Three Months ended 30.09.2024 (Unaudited)	Three Months ended 30.06.2024 (Unaudited)	Three Months ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2024 (Unaudited)	Three Months ended 30.09.2024 (Unaudited)	Three Months ended 30.06.2024 (Unaudited)	Three Months ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2024 (Unaudited)
1. 2.	Total Income Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	7,731.37 548.80	6,605.46 598.69	6,074.14 461.83	14,336,83 1,147.49	7,904.76 479.05	6,508.90 592.79	6,158.87 474.84	14,413.66 1,071.84
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	237.91	306.41	198.50	544.32	163.29	300/10	208.41	463.39
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	237.91	306.41	198.50	544.32	163.29	300.10	208.41	463.39
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	167.05	222.46	151.64	389.51	92.43	216.15	160.57	308.58
6.	Total Comprehensive Income for the period.	193.79	223.79	159.40	417.58	118.93	217.51	168.20	336.44
7.	Equity Share Capital (Face value of Re. 1/- Per Share)	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73
8.	Earnings Per Share (of Re.1/-each) (Not Annualized*)		0.025404.54				204.04.00	12/1 6-1	2000
	Basic	0.15	0.21	0.14	0.36	0.09	0.20	0.15	0.29
_	Diluted	0.15	0.21	0.14	0.36	0.09	0.20	0.15	0.29

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites: - www.bseindia.com and on the Company's website www.supertannery.com

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereafter. The said financial results of the Parent Company and its subsidiaries [together referred as the "Group"] have been prepared in accordance with Ind AS 110 - Consolidated financial statements".

> For and on Behalf of the Board of Directors Iftikharul Amin Managing Director DIN: 00037424 **nn·** बिरला कॉटन रियानग मिल्स वाावग एण्ड कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L65100DL1920PLC099621 पंजीकृत कार्यालय : हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, मेजेनाइन फ्लोर, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 दूरभाष : 011-66561206, ई-मेल : secretarial.ht@rediffmail.com, चेबसाइट : www.birlacotton.com 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (रु. लाख में

क्र. सं.	विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष	
स.		30.09.2024 अलेखापरीक्षित	30.06.2024 अलेखापरीक्षित	30.09.2023 अलेखापरीक्षित	३०.०९.२०२४ अलेखापरीक्षित	30.09.2023 अलेखापरीक्षित	31.03.2024 लेखापरीक्षित	
1	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	202.32	138.12	170.77	340.44	303.29	651.70	
Z	अवधि हेतु (कर, विशिष्ट तथा असाधारण मदों से पूर्व) निवल लाभ/(हानि) #	171.12	123.81	158.19	294.93	279.74	446.20	
3	अवधि हेतु कर पूर्व (विशिष्ट तथा असाधारण मदों के पश्चात) निवल लाभ/(हानि) #	171.12	123.81	158.19	294.93	279.74	446.20	
4	अवधि हेतु कर पश्चात (विशिष्ट तथा असाधारण मदों के पश्चात) निवल लाभ/(हानि) #	124.02	94.59	121.19	218.61	213.48	324 36	
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि (कर पश्चात) हेतु लाभ / *(-) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल) *	219.81	348.98	94.00	568.79	518.29	1,326.40	
6	इक्विटी शेयर पूंजी	114.42	114.42	114.42	114.42	114.42	114.42	
7	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक) (सतत प्रचालनों हेतु-वार्षिकीकृत नहीं)							
	मूल	10.84	8.27	10.55	19.11	18.70	28.35	
	डाइल्यूटेड	10.84	8.27	10,55	19.11	18.70	28.35	

	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from operations	2,510.32	3,229.18	4,318.58	5,739.50	7,898.64	15,972.92
Profit/(loss) before tax (including exceptional item)	(58.85)	(50.80)	(56.80)	(109.65)	(184.87)	(276.78)
Net profit / (loss) for the period after tax	(40.77)	(38.00)	(44.01)	(78.77)	(139.98)	(208.74)
Total comprehensive income (comprising profit / (loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(40.67)	(37.90)	(45.90)	(78.58)	(143.77)	(208.36)
Paid-up Equity Share Capital	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73
Reserves as shown in the Balance Sheet		27				4,758.95
Earning per Share (of Rs. 10/- each)		Ĩ.				
Basic & diluted earning per share	(0.46)	(0.43)	(0.50)	(0.89)	(1.59)	(2.37)
Basic & diluted earning per share (after exceptional items)	(0.50)	(1.09)	(0.69)	(1.59)	(1.53)	(10.18)
Notes:	v	W	7 XS 752	W 29. 507	(	- 90 - 00

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved thereafter by the Board of Directors in the meeting held on 13 November 2024. These results have been reviewed by the Statutory Auditors of the company.

The SLP on merits with the Honourable Supreme Court and writ petition in High Court of Delhi are still pending for disposal and contingent liability against this matter shall stand as it is.

3. Deferred tax assets Rs.2207.07 lacs as at 30<sup>th</sup> September, 2024 is expected to be realized, as the company strongly believes that it has reasonably certainty of realization. The company has enhanced its product portfolio and the new business strategy of deeper penetration, greater operational efficiency, thereby the company expects to start absorbing the losses gradually. Moreover there are no brought forward losses under the Income Tax Act, which are expiring during the current financial year.

In accordance with IND AS-108 "Operating Segment", the company has only one reportable segment i.e " Consumer Electronic Division".

5. The figures for the corresponding previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to make them comparable.

Place : New Delhi. Date : 13<sup>th</sup> November, 2024 . 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी और 14 नवम्बर, 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की संबद्ध बैठक में अनुमोदित की गयी और रिकार्ड पर ली गयी।

2. सांविधिक लेखापरीक्षिकों ने 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है

3. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों को इंड एएस 34 '' अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग'' के माध्यम से निर्धारित मान्य एवं मापन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किया गया है।

4. (i) शेयरों में निवेश (एसोसिएट्स में निवेश के अतिरिक्त) को इंड-एएस तथा कम्पनी अधिनियम की अनुसूची कक्क (डिवीजन-क्क) के तहत उपलब्ध विकल्प के अनुसार ''उचित मूल्य'' के तहत मापित और वर्गीकृत किया गया है।

(ii) ऋण आधारित म्यूचुअल फण्ड में निवेश (ट्रेडिंग हेतु धारित नहीं) को लाभ एवं हानि के माध्यम से ''उचित मूल्य'' के तहत मापित और वर्गीकृत किया गया है।

. वर्तमान तिमाही के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए जहाँ आवश्यक समझा गया, संगत तिमाही के आँकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

. उपर्युक्त सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की समीक्षा रिपोर्ट सहित 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट www.birlacotton.com तथा www.cse-india.com के कॉर्पोरेट खण्ड में वित्तीय परिणाम के तहत उपलब्ध है।

कम्पनी के पास उपर्युक्त अवधि में रिपोर्ट करने के लिए कोई विशिष्ट तथा असाधारण मद नहीं है।

	कृते द बिख्ला कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड
	ह./-
	राजेन्द्र कुमार अग्रवाल
स्थान : नई दिल्ली	निदेशक
तिथि : 14.11.2024	डीआईएन : 00043371



Sd/-

DIN: 00024325

**GOPAL SITARAM JIWARAJKA** 

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR





